



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 1977/कार्तिक 11, 1899

No. 147]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 1977/KARTIKA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 2nd November 1977

G.S.R. 670(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) or rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts mill board; falling under sub item (2) of Item No 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) in the manufacture of which drying process, commonly known as sun dry (sun drying) process, has been employed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent *ad valorem*.

Explanation—For the purposes of this notification, "mill board" means any unbleached homogeneous board, having a thickness exceeding 0.50 millimetres and made out of mixed waste papers with or without screenings and mechanical pulp but without any colouring matter being added thereto.

[No. 311/77]

R. K. CHANDRA, Under Secy.

(2097)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1977

सा० का० नि० 670 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 की उप-मद (2) के अन्तर्गत सम्मिलित मिल बोर्ड को, जिनके विनिर्माण में शुष्कन प्रक्रिया का, जिसे सामान्यतः धूप में सुखाने की प्रक्रिया कहते हैं, प्रयोग किया गया हो, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक हैं ।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए “मिल बोर्ड” से ऐसा अविरजित समजातीय बोर्ड अभिप्रेत है, जिसकी मोटाई 0.50 मिलीमीटर से अधिक हो और जो बिना छने या छने मिश्रित रद्दी कागजों से, और यंत्रजन्य गूदे से किन्तु उसमें किसी रजक पदार्थ को मिलाए बिना, बनाया गया हो ।

[सं० 311/77]

आर० के० चन्द्र, अधर सचिव ।

[सं० 311/77]

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिनटो रोड नई दिल्ली द्वारा
अधिकृत रूप से प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977